PREMIER POLYFILM LTD.

305,THIRD FLOOR, ELITE HOUSE,36,COMMUNITY CENTRE, KAILASH COLONY EXT. (ZAMROODPUR)

NEW DELHI 110 048

CIN NO. L25209DL1992PLC049590

Phone 011-29246481

Email: compliance.officer@premierpoly.com, Website:www.premierpoly.com

PPL/SECT/2022-2023

13/01/2023

BSE LIMITED

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD

SUBJECT: NEWSPAPER PUBLICATION- DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 AND 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015. ("SEBI LISTING REGULATIONS").

REGARDING COMPANY CODE: NSE: PREMIERPOL, BSE 514354

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we enclose herewith the copies of Newspaper publication published in Financial Express, all editions and Jansatta, Delhi edition intimating that a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Friday, 27th January,2023 at 11.30 A.M. at Registered Office of the company at 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 to consider and approve Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter and Nine months ended 31st December,2022.

Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015 is closed from Sunday, 01st January,2023 to Sunday, 29th January,2023 (both days inclusive).

This is for your record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For PREMIER POLYFILM LTD.,

DHWANI SHARMA COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Enclosed: As above

FINANCIAL EXPRESS

FIIs offload over \$1 bn in first eight sessions

SIDDHANT MISHRA Mumbai, January 11

THE FIRST EIGHT trading sessions of 2023 have seen outflows by foreign institutional investors (FIIs) continue, with \$817.58 million being offloaded from equities between January 2 and January 10, according to Sebi data.

FIIs sold a provisional ₹3,208.15 crore (\$392.6 million) of shares on January 11, according to data from the National Stock Exchange.

This takes the total amount withdrawn by FIIs until January 11 to \$1.21 billion.

According to the data, while the first session of the new year saw inflows of \$201 million, the remaining days have seen continuous outflows, except for January 9, a day on which there was a meagre \$7 million of inflow.

"The US Fed meeting, along with concerns regarding recession, which has led to volatility in global markets, has been the key factor.

Also, in the beginning of the year, FIIs tend go on a vacation.

Add to that, with the upcoming Budget, they are awaiting clarity.

PRESS TRUST OF INDIA

IN A HIGHLY volatile trade,

equity benchmarks Sensex and

Nifty ended on a flat note on

Wednesday amid unabated

foreign fund outflows and a

weak trend in index heavy-

day's decline, the 30-share BSE

Sensex dipped 9.98 points or

0.02% to settle at 60,105.50.

During the day, it fell 309.7

points or 0.51% to 59,805.78.

ded 18.45 points or 0.10% to

Bharti Airtel, Hindustan

Unilever, Titan, Reliance

Industries, Nestle, IndusInd

Bank, Bajaj Finserv and NTPC

Cement, Tata Motors, Larsen &

Toubro, Tata Consultancy Ser-

vices, HDFC Bank and Tata

Motors were among the

market in the near-term is the

"The biggest drag on the

Sun Pharma, UltraTech

were the major laggards.

end at 17,895.70.

winners.

The broader NSE Nifty skid-

From the Sensex pack,

Continuing its previous

weight Reliance Industries.

Mumbai, January 11

FIIs trim money whenever there is volatility, and there are multiple factors causing volatility at present," said Chandan Taparia, Head (Technical & Derivatives Research), Motilal Oswal Financial

Agrees Deepak Jasani, head of retail research at HDFC Securities, saying that the outflows are a reflection of new year allocations getting deferred.

"With the US Fed not moving away from its hawkish stance and China gradually reopening, there are contrary signals as regards global appetite.

"Many who bought in

Many short-term FPIs have withdrawn money, and will come back later once

He added that while the rupee has recovered to below the 82-mark, the weakness could have caused some panic among

Foreign Institutional Investors (FIIs) withdrew over

FIIs sold a provisional ₹3,208.15 crore (\$392.6 million) of shares on January 11, according to data from the National **Stock Exchange**

\$16 billion from Indian equities in 2022, turning net sellers for the first time in four years.

This was despite India being the second-best performing market in the world in 2022, with the Sensex and Nifty raking in gains of over 4% each.

Brokerages have, in their

flows are expected to remain volatile. BoFA Securities, in its outlook, had said that with valu-

outlook for 2023, said FII

ations at a 10% premium to their long-term average, FII inflows could stay volatile. The brokerage had cited a

slowdown in the US and global economy, the Fed pivot, a strengthening yuan, higher crude, and reopening in China, along with geopolitical uncertainties such as Russia-Ukraine and China-Taiwan, as key events to watch in 2023.

Aditya Birla Sun Life MF launches new fund

Mumbai, January 11

announced the launch of its Multi Asset Allocation Fund on Wednesday. It is an openended scheme investing in equity, debt, and commodities. The new fund offer or NFO will be open from January 11-25.

A Balasubramanian, MD and CEO of Aditya Birla Sun Life AMC, said the new fund will offer investors diversification across asset classes. He added that the fund invests in a diversified portfolio of high-quality debt and money market securities, in order to generate wealth with minimum credit risk.

While the equity portion will follow a flexi-cap approach with a large-cap bias, investing across sectors/themes, the fixed income portfolio will largely use an accrual strategy. The fund will invest 65-80% in equity, 10-25% in fixed income and 10-25% in com-

modities. Sharing its annual outlook for 2023, the fund house believes Indian markets are poised to deliver returns in the range of 8-10% in CY23, slightly below earnings growth. It expects a compound annual

ings over FY22-FY24, driven by banking along with auto, consumer, and infra sectors.

Pointing at the resilient domestic demand, an expected uptick in rural recovery, rising credit growth, and contraction in commodity prices, the fund house sees no downside risk to earnings growth in the near term. It recommends investors to take measured allocation to equities, in light of above-average valuations and moderating growth, with target equity allo-

return on equity for Nifty50 firms to improve, forecasting a the resilience among Indian corporates to maintain effi-

However, with the Fed likely reaching the end of its rate hike cycle and the dollar weakening, pressure on EMs to maintain

RBI directions to avoid trading errors

THE RESERVE BANK of India (RBI) on Wednesday issued directions to all market participants to avoid errors while placing bids for g-sec auctions. The RBI has asked all the market participants to place "price/yield range setting" facility provided

on the e-Kuber platform. The central bank had issued similar instructions to market participants back in 2019. The facility allows traders to

set a range for the bids they intend to submit in an auction. —FE BUREAU



CIN: L31200GJ2004PLC044068 Website: www.torrentpower.com

TORRENT POWER LIMITED Regd. Office: "Samanyay", 600, Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015 (Gujarat), India Phone: +91-79-2662 8300 E-mail: cs@torrentpower.com

(FOR THE ATTENTION AND IMMEDIATE ACTION OF THE EOUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY)

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("Rules"), Equity Shares of the Company in respect of which dividend amounts have remained unclaimed for seven consecutive years or more are required to be transferred to the Demat account of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority.

The Company has sent individual communication to the concerned Shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority as per the aforesaid Rules for taking appropriate action. The Company has uploaded full details of the concerned Shareholders on its website i.e., www.torrentpower.com.

The concerned Shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to Demat account of IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them. The original share certificate registered in their name, will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable and upon such issue of new share certificate, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new share certificate into Demat form for the purpose of transfer of shares to the Demat account of IEPF Authority. Concerned Shareholders holding shares in dematerialized form may note that Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares to the Demat account of IEPF Authority.

The concerned Shareholders are requested to claim the unclaimed dividend due to them by making an application immediately along with the necessary documents mentioned in the letter and send it to Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), 5th floor, 506-508, Amarnath Business Centre-1 (ABC-1), Besides Gala Business Centre, Near St. Xavier's College Corner, Off C. G. Road, Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006. Tel: +079-26465179; Email: ahmedabad@linkintime.co.in. Website: www.linkintime.co.in.

injunctions / restraint orders, etc. obtained from any Court / Statutory Authority with respect to transfer of shares or payment of dividend, etc. The Shareholders may further note that the details uploaded by the

The concerned Shareholders are also requested to immediately communicate to the Company with the copy of the Order in case of

Company on its website should be regarded as an adequate notice in respect of transfer of shares to the Demat account of IEPF Authority.

The Shareholders may note that both the unclaimed dividends and the

shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed by the Shareholder from IEPF Authority by making an online application in the prescribed web Form IEPF-5 and sending the physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) along with the requisite documents enumerated in the web Form IEPF-5 to Company at the above mentioned address. Also, note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned Shareholders by April 15, 2023, the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the Demat account of IEPF Authority by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

Securities and Exchange Board of India has made mandatory for the Members holding securities in physical form to furnish PAN, KYC details and Nomination to the RTA of the Company. In case of failure to provide required documents and details, all folios of such Members shall be frozen on or after April 01, 2023 by the RTA. More details of the above are available on the website of the Company https://www.torrentpower.com/index.php/investors/holdingshares.

In case the Shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's RTA or to the Company at the aforementioned address.

> For Torrent Power Limited Rahul Shah Company Secretary

> > 45,90,000

Services.

Markets end flat in choppy

sustained selling by FIIs for 13

continuous sessions, which has taken the cumulative cash

market selling to ₹16,587

crore," said VK Vijayakumar,

Chief Investment Strategist at

BSE midcap gauge declined

In the broader market, the

Geojit Financial Services.

trade; Sensex at 60,105

anticipation are also getting out, primarily because of the key triggers ahead — the upcoming Budget and US Fed meet, both on February 1.

there is clarity," he said.

0.27%, while smallcap index

ended marginally higher by

FMCG fell 0.98%, utilities declined 0.78%, energy (0.53%),

auto (0.46%), consumer

durables (0.36%) and consumer

For PREMIER POLYFILM LTD

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

discretionary (0.34%).

Among sectoral indices,

0.02%.

PREMIER POLYFILM LTD.

Regd. Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre,

Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -110048.

CIN: L25209DL1992PLC049590, Phone: 011-29246481

Email: compliance.officer@premierpoly.com Website: www.premierpoly.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations.2015,

a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Friday,

27^h January,2023 at 11.30 A.M. at Registered Office of the company

at 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony

Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 to consider and approve

Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter

Further, trading window for dealing in the securities of the Company by

the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading)

The notice is available on the Company's website www. premierpoly.com

Regulations, 2015 is closed from Sunday, 01st January, 2023 to

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR LANCO KONDAPALLI POWER LIMITED (IN LIQUIDATION) (Under Regulation 32 and 33 and Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

50	RELEVANT PARTICULARS					
Name of the corporate debtor	Lanco Kondapatti Power Limited					
Name of the corporate debtor Date of incorporation of corporate debtor	August 21, 1995					
Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Registrar of Companies – Hyderabad under the Companies Act, 1956					
Corporate identity number of corporate debtor	U40101TG1995PLC021459					
Address of the registered office of corporate debtor	Registered and Corporate Office : Plot no. 4, Software Units Layout, Hitec 081, Telangana, India	h City, Madhapur,	Hyderabad 500			
Liquidation commencement date of the corporate debtor	April 16, 2021 and Order made available to Liquidator on April 23, 2021					
Name, address, email address, and the registration number of the Liquidator	Name: Pankaj Dhanuka Registration Number: IBBI/IPA-001/IPP01205/2018-2019/11911 Correspondence Address: Deloitte India Insolvency Professionals LLP, 27th Floor, Tower 3, One International Centre, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400013 Email ID: inlancokpl@deloitte.com					
Reserve Price and Earnest			(Amt in INR)			
Money Deposit ('EMD')	Particulars	Reserve Price	EMD			
	Parcel 1- Category A – Going-Concern sale	1,05,94,93,074	5,00,00,000			
	Parcel 2- Category B – Plot No. 106 and 99 and Buildings	99,46,069	5,00,000			
	Parcel 3- Category B – Jakkampudi and Nunna Land	1,04,60,249	5,00,000			

Money Deposit ('EMD')						
,	Particulars Particulars	Reserve Price	EMD			
	Parcel 1- Category A – Going-Concern sale	1,05,94,93,074	5,00,00,000			
	Parcel 2- Category B – Plot No. 106 and 99 and Buildings	99,46,069	5,00,000			
	Parcel 3- Category B – Jakkampudi and Nunna Land	1,04,60,249	5,00,000			
	Parcel 4- Category B - Mumbai Shop (Malad (E)) (Building)	47,96,618	2,00,000			
	Parcel 5- Category B- Kondapalli - Backside of Railway Track for Greenbelt	1,62,83,745	8,00,000			
	Parcel 6- Category B - Buildings of Phase II	20,86,511	1,00,000			
	Parcel 7- Category B - Buildings of Phase III	59,63,066	3,00,000			
Eligibility Criteria and other details for participating in the e-auction	As set out in the latest Process Document uploaded on and accessible at (www.lanco Last date for submission of Bid Documents including EOI along with Supporting Docu schedule & mechanism and business plan as required under Process Document shal	ments, EMĎ, proof c	of funds, payment			
Date and time of E-Auction	Auction Start Date & Time: 08-02-2023 @ 12:00 hours Auction End Date & Time: 08-02-2023 @ 18:00 hours					

amended from time to time, which will be uploaded on the website of the Corporate Debtor and accessible at (www.lancogroup.com) The Bids will be conducted through e-auction. The manner of the conduct of the e-auction process will be set out in the latest Process Document, as amended from time to time Note: Nothing contained herein shall constitute a binding offer or a commitment to sell the Corporate Debtor as a going concern or any of its assets. For clarification, please note that this public announcement has been issued for sale of the Corporate Debtor as a going concern and/or various set(s) of assets under Category A or Category B as set out in the Process Document uploaded on the website of the Corporate Debtor excluding assets of Phase I of the Corporate Debtor, assets of Phase II of the Corporate Debtor, Guntupalli Land located in Vijaywada, Nainavaran land located in Nainavaram village, Land in Tamil Nadu located in Tuticorin and New Reservoir and Buildings located in Kondapalli village for which successful bidders have been identified in the previous auctions and assets under phase III of the Corporate Debtor which has been excluded from

The Liquidator reserves the right to amend and/or annul this invitation including any timelines or the process therein, without giving reasons, at any time without assigning any reason or assuming any liability or costs. Any such amendment in the invitation, including the aforementioned imelines, shall be notified on the website accessible at (www.lancogroup.com).

the current e-auction in consultation with the stakeholder's consultation committee of the Corporate Debtor

Bidders are requested to regularly visit the website of the Corporate Debtor (www.lancogroup.com) for the updates on the e-auction Mr. Pankaj Dhanuka, Liquidator of Lanco Kondapalli Power Limited

Registration Number: IBBI/IPA-001/IP/P-01205/2018-2019/11911 Date : January 12, 2023 Address: Deloitte India Insolvency Professionals LLP, One International Center, 27th Floor, Tower 3. Place: Kolkata Senapati Bapat Marg, Elphinstone (W), Mumbai, Maharashtra, 400013

continued from previous page.

Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹10 lakhs) (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

Place: New Delhi

Date: 11.01.2023

and nine months ended 31st December, 2022.

Sunday, 29th January, 2023 (both days inclusive).

and also on www.bseindia.com and www.nseindia.com

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹10 lakhs), who have bid at the Issue Price of ₹65 per Equity Share or above, was finalized in consultation with

Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares Applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted	QIB portion were allotte were allotted to 8 succe with NSE. This category
15,410	1815	93.03	2,79,69,150	80.62	3,227	295:1815	9,51,965	Shares under the availa
15,640	42	2.15	6,56,880	1.89	3,227	7:42	22,589	spill-over to Net QIB po
15,870	9	0.46	1,42,830	0.41	3,227	1:9	3,227	category is 30,60,000 E
16,100	17	0.87	2,73,700	0.79	3,227	3:17	9,681	Category
17,250	4	0.21	69,000	0.20	3,227	1:4	3,227	QIB
18,630	8	0.41	1,49,040	0.43	3,227	1:8	3,227	E. Allotment to Anchor In
23,000	5	0.26	1,15,000	0.33	3,227	1:5	3,227	The Company in consu
38,640	5	0.26	1,93,200	0.56	3,227	1:5	3,227	Investor Issue Price at ₹
76,820	5	0.26	3,84,100	1.11	3,227	1:5	3,227	Category
16,560	2	0.10	33,120	0.10	3,227	0:2	0	Anchor
16,790	1	0.05	16,790	0.05	3,227	0:1	0	The Board of Directors of o
17,020	1	0.05	17,020	0.05	3,227	0:1	0	being NSE and has allotted investors as registered with
17,710	2	0.10	35,420	0.10	3,227	0:2	0	and the payments to non-s
18,400	1	0.05	18,400	0.05	3,227	0:1	0	the address given below.
22,310	2	0.10	44,620	0.13	3,227	0:2	0	validation of the account de
22,770	1	0.05	22,770	0.07	3,227	0:1	0	listing and trading approva
23,690	1	0.05	23,690	0.07	3,227	0:1	0	Note: All capitalized terms
27,600	1	0.05	27,600	0.08	3,227	0:1	0	INVESTORS PLEASE NO
30,590	1	0.05	30,590	0.09	3,227	0:1	.0	These details of the Allot
30,820	3	0.15	92,460	0.27	3,227	0:3	0	All future correspondence number, Bidders DP ID, CI
32,200	1	0.05	32,200	0.09	3,227	0:1	0	place where the bid was su
34,500	1	0.05	34,500	0.10	3,227	0:1	0	PORTOR STATE OF THE STATE OF TH
37,950	1	0.05	37,950	0.11	3,227	0:1	0	
38,410	1	0.05	38,410	0.11	3,227	0:1	0	
45,080	1	0.05	45,080	0.13	3,227	0:1	0	
46,000	2	0.10	92,000	0.27	3,227	0:2	0	
46,230	1	0.05	46,230	0.13	3,227	0:1	0	
69,000	3	0.15	2,07,000	0.60	3,227	0:3	0	
79,810	1	0.05	79,810	0.23	3,227	0:1	0	
86,020	1	0.05	86,020	0.25	3,227	0:1	0	
1,07,870	1	0.05	1,07,870	0.31	3,227	0:1	0	
1,15,000	1	0.05	1,15,000	0.33	3,227	0:1	0	Place: Udaipur
1,15,460	1	0.05	1,15,460	0.33	3,227	0:1	0	Date: January 11, 2023
1,53,640	2	0.10	3,07,280	0.89	3,227	0:2	0	THE LEVEL OF SUBSCR
1,53,870	1	0.05	1,53,870	0.44	3,227	0:1	0	PROSPECTS OF SAH PO
2,30,000	1	0.05	2,30,000	0.66	3,227	0:1	0	SAH POLYMERS LIMITE www.sebi.gov.in as well as
2,48,400	1	0.05	2,48,400	0.72	3,227	0:1	0	India Limited at www.nsein
5,53,840	1	0.05	5,53,840	1,60	3,227	0:1	0	risk and for details relating
6,15,250	3	0.15	18,45,750	5.32	3,227	0:3	0	This Announcement has be
(C. 10. C. 10. C	All applicants from Sena		(one) lot of 3227 shares	N-0,117Fe	3,227	5:41	16,135	any jurisdiction, including t
	316 Allottees from Seria	the state of the property of the second property to the state of			1	67:79	268	Act of 1933 or an exemptio
TOTAL	1951	100	3,46,92,050	100			10,20,000	the Company and that will being offered or sold in the

D. Allotment to QIBs (After Technical Rejections):

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹ 65 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 2.24 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were required to be allotted 5% of the Equity Shares under the available Net QIB portion. However, the Offer did not receive any demand from Mutual Funds in the Net QIB portion and accordingly the Mutual Funds portion were spill-over to Net QIB portion. The Net QIB portion were allotted the available Equity Shares i.e. 30,60,000 Equity Shares. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 30,60,000 Equity Shares, which were allotted to 8 successful Applicants. Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹65 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 2.24 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were required to be allotted 5% of the Equity Shares under the available Net QIB portion. However, the Offer did not receive any demand from Mutual Funds in the Net QIB portion and accordingly the Mutual Funds portion were spill-over to Net QIB portion. The Net QIB portion were allotted the available Equity Shares i.e. 30,60,000 Equity Shares. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 30,60,000 Equity Shares, which were allotted to 8 successful Applicants

Place: Ahmedabad

Date : January 12, 2023

Category FI'S/BANK'S NBFC'S FPC VC'S Total 26,91,887 0 3,68,113 30,60,000

E. Allotment to Anchor Investors (After Technical Rejections) The Company in consultation with the BRLM, have allocated 45,90,000 Equity Shares to 3 Anchor Investors (through A1, A2, A3 Anchor Investor Application Forms) at an Anchor

Investor Issue Price at ₹ 65 per Equity Share in accordance with SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB portion. FPC **OTHERS** FI'S/BANK'S NBFC'S Total Category

The Board of Directors of our Company at its meeting held on January 09, 2023 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange,
being NSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation and/or notices have been dispatched to the address of the
investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on January 09, 2023
and the payments to non-syndicate brokers have been issued on January 10, 2023. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at
the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on January 10, 2023 for credit into the respective beneficiary accounts subject to

validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with NSE and BSE on January 11, 2023. The Company has received the listing and trading approval from NSE & BSE, and trading will commence on January 12, 2023. Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.

These details of the Allotment made shall be hosted on the website of Registrar to the Issue, Link Intime India Private Limited at www.linkintime.co.in.

INVESTORS PLEASE NOTE

PROSPECTS OF SAH POLYMERS LIMITED

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the Bid cum Application form

number, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate. place where the bid was submitted and payment details at the address given below:

LINKIntime

Link Intime India Private Limited C 101, 247 Park, L.B.S. Marg Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India. Tel: +91 22 4918 6200 / 810 811 4949; Email: Sahpolymers.ipo@linkintime.co.in Investor grievance Email: Sahpolymers.ipo@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in; Contact person: Shanti Gopalkrishnan; SEBI Registration no: INR000004058

For SAH POLYMERS LIMITED On behalf of the Board of Directors Runel Saxena Company Secretary & Compliance Officer THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS

SAH POLYMERS LIMITED has filed the prospectus dated January 06, 2023 with the RoC (the "Prospectus"). The Prospectus shall be made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Pantomath Capital Advisors Private Limited at www.pantomathgroup.com, the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the website of the BSE Limited at www.bseindia.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see "Risk Factors" beginning on page 26 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP for any investment decision.

45,90,000

This Announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares offered in the Offer may not be offered or sold in the United States in absence of registration under the U.S. Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares offered in the Offer are not being offered or sold in the United States.

financialexp.epam.in

FIIs in the initial sessions.

FE BUREAU growth rate of 13-15% in earn-ADITYA BIRLA SUN Life MF

cation close to the median level. Overall, it estimates the

15.3% RoE in FY23E. It cites ciency despite challenges.

In the second half of 2023, it expects emerging markets to rebound on the back of a weaker dollar. As the dollar gained strength in 2022 and the US Fed hiked rates aggressively, EMs faced challenges maintaining their balance of payment.

BoP levels is easing.

New Delhi

... Applicant

BANK OF BARODA

VAJIRAS ALIYA AND OTHER

PREMIER POLYFILM LTD.

Regd. Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -110048. CIN: L25209DL1992PLC049590, Phone: 011-29246481

Email: compliance.officer@premierpoly.com Website: www.premierpoly.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations.2015. a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Friday 27^h January,2023 at 11.30 A.M. at Registered Office of the company at 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 to consider and approve Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022.

Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 is closed from Sunday, 01st January, 2023 to Sunday, 29th January,2023 (both days inclusive).

The notice is available on the Company's website www. premierpoly.com and also on www.bseindia.com and www.nseindia.com

For PREMIER POLYFILM LTD

Place: New Delhi Sd/-Date: 11.01.2023 **COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त दानिश पुत्र शाहिद निवासी मकान नंबर 58, गली नंबर 71/2 तुगलकाबाद एक्सटेंशन गोविंदप्री, दिल्ली ने ई प्रथम सचना रिपोर्ट संख्या 38325/2019 दिनांक 27.10.19 भा.द.सं. की धारा 379/411 के तहत, थाना कमला मार्केट, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त दानिश मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त दानिश फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि ई प्रथम सुचना रिपोर्ट संख्या 38325/2019 दिनांक 27.10.19 भा.द.सं. की धारा 379/411 के तहत थाना कमला मार्केट, दिल्ली के उक्त अभियुक्त दानिश से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 08.02,2023 को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आवेशानुसार सुश्री मीना चौहान महानगर दण्डाधिकारी-08

Date: 17/11/2022

... Applicant

दि.पू./4318/केन्द्रीय जिला/2022 केन्द्रीय कमरा नं.272, तीस हजारी कोर्टस, दिल्ली

FORM NO. 5

THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL. LUCKNOW

600/1, University Road Near Hanuman Setu Temple Lucknow-236007. [Summons to defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts Due to the Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993)]

O.A. No. 926/2020 BANK OF BARODA

VERSUS

NAVJEET YADAV AND OTHER

...DEFENDANTS

1. MR. NAVJET YADAV S/O SH. JAGROOP YADAV **R/O** C-216 BITA 1ST GREATER NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR 201308

. MRS. NISHA YADAV W/O MR. NAVJEET YADAV R/O C-216 BITA 1ST GREATER NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR 201308

. MR. GAURAV SARAN S/O SH. ANIL KUMAR R/O C-457, SWARN JAYANTI PURAM, GHAZIABAD 201013 ALSO AT: F-19

MAIN MARKET GOVINDPURI MODINAGAR GHAZIABAD 201204 . M/S HOUNSLOW BUILDERS PVT. LTD.

HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT: F-127, HARSH VIHAR, HARI NAGAR EXTN. PART-3 NEAR BADARPUR NEW DELHI 110044 In the above noted application, You are required to file reply in the Paper Book form in two

sets along with documents and affidavit personally or through your duly authorized agent or legal practitioners in this tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/dully authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the tribunal on 17/01/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard

and decided in your absence. Enclosure:- As above.

Registrar, **Debts Recovery Tribunal, Lucknow**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank the name you can BANK upon!

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, गुरूग्राम (डी नं. 823000)

प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरूग्राम

कब्जा सूचना अचल सम्पत्ति हेतु नियम 8(1) देखें

नबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक**, का प्राधिकत अधिकारी होने के नाते तथ प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार मैससं वृत्विराईन फार्म (पार्टनरशिप फर्म) को मांग नोटिस दिनांक 14.10.2022 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 1,40,59,528.01 (रु. करोड़ चालीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अट्ठाईस और पैसे एक मात्र) और दिनांक 01.10. 2022 से मविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रमार इत्यादि सहित, उक्त नोटिस / प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भूगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता(ओं) / गारेटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) तथा सर्वसाधारण को

सुचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के सीथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक 10.01.2023 को कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता(ऑ) / गारंटर(ऑ) / बंधककर्ता(ऑ) का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), वं

प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) / बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य

रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 1,40,59,528.01 (रु. करोड चालीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ अहाईस और पैसे एक मात्र) और दिनांक 01 10.2022 से भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

मकान नं. वी-11सी, बीपीटीपी पार्कलैंड, सैक्टर-76, फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री शिव

क्मार, श्री अजय कुमार और श्री अशोक कुमार के नाम पर है।

दिनांक: 10.01.2023, स्थान: फरीदाबाद प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: पाँचवीं मंजिल, इमारत नं. 27, केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001 CIN:L65922DL2005PLC136029

ई- मेल: homeloans@indiabulls.com., टेलि: 0124-6681212,

फैक्स: 0124-6681111, वेबसाईट: http://www.indiabullshomeloans.com

कंपनी के इक्विटी शेअरधारकों के ध्यान के लिए

विषय: कंपनी के इक्विटी शेअरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधी प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) संशोधन नियम 2016 ('नियम') जिसे भारत सरकार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी विभिन्न अधिसुचनाओं के साथ पढ़ा जाए. के अनुसार यह नोटिस जारी किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 124 (6) के अनुसार सात वर्षो से या उससे अधिक भगतान न किए गए या दावा न किए गये लाभांश के संबंध में सभी शेअर निवेशक शिक्षा और संरंक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर आईईपीएफ सन्देही खाते में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी हैं, वो कैसे भूगतान न किए गये या दावा न

किए गये लाभांश के मूल्य को 08 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले दावा कर सकते है। सभी भुगतान न किए गये या दावा न किए गये लाभांश का वार्षिक विवरण और शेयरधारको का संपूर्ण विवरण जिनमें उनके फोलियो नं. या डीपी आइडी/ ग्राहक आईडी शामिल है जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने के लिए उत्तरदायी है, यह सभी जानकारी कंपनी वेबसाईट

www.indiabullshomeloans.com पर उपलब्ध है। सभी शेअरधारक इस बात पे ध्यान दें कि भौतिक रुपमें और विमुद्रीकृत रूप में रखे गए शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, इन शेयरोको अर्जित लाभ के साथ. यदी कोई हो तो. वह नियमों

में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा दावा कर सकते हैं। शेअरधारक इस बात पे ध्यान दें कि नियमो के अनुसार, कंपनी आईईपीएफ मे स्थानांतरित करने के उदेश्य से मुल शेयर सर्टिफिकेट के बदले में डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिस पर मूल शेयर सर्टिफिकेट स्वचालित रुप से रद्द हो जाएंगे।

यदि 08 अप्रैल, 2023 तक भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में शेयर रखने वाले संबंधित शेयरधारको से कोई सचना प्राप्त नहीं होती है, तो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन शेयरों और लाभांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी उचित कारवाई शुरू करेगी।

इस संबंध में यदि कोई शेयरधारक को पछताछ करनी हो तो कृपया कंपनी के रजिस्टार एवं शेयर ट्रान्सफर एजंट, केफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, श्रीमती सी शोभा आनंद, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं 31- 32, गाचीबोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500032 टॉल फ्री:1800-309-4001;

ईमेल:einward.ris@kfintech.com, पर संपर्क कर सकते है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11, जनवरी 2023

www.readwhere.com

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

अमित जैन कंपनी सचीव और कंप्लायंस ओफिसर

COURT NOTICE सर्कल शास्त्र सेन्टरः पूर्वी दिल्ली, मयूर विहार

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नेशनल बैंक

MEHAM ROHTAK Case No. DMC/22/2021 CNR No. HRRHF2-000033-202 Next Date: 03-02-2023 फेज-2, पॉकेट-ई दिल्ली-110091 Sandeep Balhara (Balhra) son of Jagdish R/o Giraw Tehsil Meham Distt Rohtak

V/S
Rupam wife of Sandeep Balhara (Balhra) D/o Abbey
Nadan Kumar
R/o BB-7, IFFCO Township Phulpur, Ghiyangar, UP
M.No. 9643695804 PETITION U/S 13 OF HINDU MARRIAGE ACT FOR DISSOLUTION OF MARRIAGE BY DECREE OF DIVORCE

Rupam wife of Sandeep Balhara (Balhra) D/o Abbey Nada Kumar R/O BB-7, IFFCO Township Phulpur, Ghiyangar, U M.No. 9643695804 ordered that theIn above titled petitio the respondent(s) could not be served. It is Responde should appear in person or through counsel on 03-02-2023 Forwarded to the Manager of Jansata Hindi (Delhi) fi publication at least 15 days before the next date of hearing Copy of publication be sent to the Court of undersigne before the next date of hearing. For more details logor https://districts.ecourts.gov.in/rohtak

Rajesh Gupta APJ, FCC, MEHAM (ROHTAK)

केन्छ। बैंक Canara Bank 📣

ई-नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री

के लिए 17.12.2022 को अंग्रेजी समाचार पत्र–

'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' (पेज नंबर 5) और हिंदी

समाचार पत्र— 'जनसत्ता' (पेज नं. 19) क्रमांक 26 पर

[मैसर्स सम्पन ज्वैलरी प्राईवेट लिमिटेड के ऋण

खाते में। की सम्पत्ति अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं

है। इस सम्पत्ति को बैंक ने 13.01.2023 को होने वाली

ई–नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया है।

शेष ई—नीलामी सचना यथावत रहेगी।

दिनांकः 11.01.2023

शाखाः राज नगर 2 -मेल: cb18780@canarabank.com

प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत बोटिस जारी किया गया वितीय संपत्ति और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।

हम केंगर बैंक, अपनी शाखा/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विश्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुगर्रयमा एवं प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की घारा 13(2) के तहत निम्नांकित तिथि को मांग सचना जारी किए हैं। विषय यह है कि आपके द्वारा मूलधन, ब्याज आदि की किस्त के भुगतान में चूळ हुई है। बकाया जीचे दिया गया है। आगे विम्लांकित उधारकर्ता। मालिक। गारंटीकर्ता को खारी की गई मांग सूचना बिना हपुर्दमी के वापस हो मयी है। आपको एतद द्वारा इस मांग सुवना के प्रकाशित होने से 60 दिन की अवधि के भीतर अतः ब्यान सहित उपर्वका राशि केनस बैंक को भगतान करने के लिए आदेशित किया जात है। ऐसा न करने पर केनरा बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा १३(४) के प्रावधार्कों के तहत उधारकर्ता/ मालिक / बंधककर्ता/ मार्टीकर्ता की प्रतिभूत आरितयों को कब्ज़ा करने सहित सभी वा किसी एक वा अधिक प्रतिभूत आरितयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवार्ड की जाएगी। अपने आपको उन्ह अधिनयम की बारा १३(१३) के तमत निम्मांकित किसी भी प्रतिभति आरित को विकी, परटे या अन्यवा माध्यम से प्रस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

उचारकर्ताः मै. बी एन इंजीनियरिंग वर्क, पताः एस-47, साउच साइड, इण्डस्ट्रियल एरिया जी.दी. रोह, गाजियाबाद, उ.प्र. २०१००१

प्रोपराइटर/ जमानतकर्ताः श्री विजेन्द्र नागर पुत्र श्री मूल चन्द्र, पताः ।।।-के-35/15ए, नेहरू नगर, गाजियाबाद उ.प्र. २०१००१ जमानतकर्ताः श्रीमती वीमा नागर पत्नी श्री विजेन्द्र नागर, पताः ।।।-के-35/15ए, नेहरू नगर, गानियाबाद उ.प्र. 201001.

कुल देय राशि 62,92,424.18 दिनांक 19.12.2022 तक, कारखाने का मौजूदा बंधक फैक्ट्री, भूमि और ईमारत, एस-47, जिसका क्षेत्रफल 595.95 वर्ग मीटर, साउथ साइड इण्डस्ट्रियल एरिया जी.दी. रोड, गाजियाबाद, उ.प्र. 201001, मालिक श्री बिजेब्द नागर पुत्र मूल चब्द, निवासी 111-के-35/15ए, नेहरू नगर, गाजियाबाद उ.प्र. 201001, और जिसकी सीमाऐ- उत्तर में 150 फिट चौड़ा रोड़, दक्षिण में प्लॉट नं. ए-३, पूर्व में प्लॉट नं. 4 और पश्चिम में प्लॉट नं. 5. दिनांकः २०.१२.२०२२ स्थानः राज नगर २ प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

> प्रपत्र ए सार्वजनिक उदघोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	डीएसआई अंडरग्राउण्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	04.09.2020
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पीरेट ऋणधारक	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
	निगमित/पंजीकृत है	(आरओसी, दिल्ली)
4.		U29309DL2020FTC369242
	सीमित दायित्व पहचान संख्या	
5.		हब एंड ओक सी-360, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली,
	प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	110024 (बेस्मेन्ट)
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ	9 जनवरी, 2023
	होने की तिथि	
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल पता, टेलीफोन	नामः सतीश आनंद शर्मा
	नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	पताः सी-3/1204, हाइड पार्क, सेक्टर 35जी, खारगर,
		नवी मुम्बई-410210
		ई-मेलः liquidation.dsi@yahoo.com
		टेलीफोन नम्बर: +91 7303393336
		पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00604/2018-
		2019/11961
	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	8 फरवरी, 2023
8.	पाय जना करन का जातन ताय	5 1.1.1. <u>1522</u>

एतदृद्वारा **डीएसआई अंडरग्राउण्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड** के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 8 फरवरी, 2023 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

सतीश आनंद शर्मा तिथि: 11 जनवरी, 2023 डीएसआई अंडरग्राउण्ड इंडिया प्राईवेट लिमिटेड स्थानः मुम्बई के परिसमापव

एम एस टी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN: L27320WB1964GOI026211

प्लॉट नं. सीएफ-18/2, स्ट्रीट नं.-175, एक्शन एरिया 1सी, न्यू टाउन, कोलकाता-700156

कोकिंग कोल की ई-नीलामी विक्री

नानी, चिरई, कच्छ, गुजरात में तिरुपति

फुएल्स प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र स्थल

पर पड़े हुए कोकिंग कोल की बिक्री के

लिए ई-नीलामी सं.:एमएसटीसी/वीएडी/

एमएसटीसी लिमिटेड/5/गुजरात/

22-23/32630, दिनांक 30.01 2023।

अधिक विवरण तथा पंजीकरण के लिए

www.mstcecommerce.com/

www.mstcindia.co.in देखें। सम्पर्क

करे: marutsaha@mstcindia.co.in/

rksingh@mstcindia.co.in; मोबाइलः

8420178283/83369285481

ई-नीलामी से संबंधित कोई भी संशोधनी/

संयोजनी/शृद्धि-पत्र/समय का विस्तार/

स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, सिर्फ

एमएसटीसी की वेबसाइट पर जारी किए

जाएंगे। नवीनतम जानकारी प्राप्त करने

के लिए बोलीदातागण नियमित रूप से

ऊपरोक्त वेबसाइट देखें।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उदघोषणा

घारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि 1. सजदा, पुत्र मो0 मिनाज निवासी बी-202, झुग्गी डेरा गाजी खान, परवाना रोड, पीतमपुरा, दिल्ली 2. राम दुलारी, पत्नी रमेश चन्द बी-202, झुग्गी डेरा गाजी खान, परवाना रोड, पीतमपुरा, दिल्ली ने case FIR No. 284/2019 U/s 323/341/506/34 IPC थाना मंगोलपरी, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त सजदा एवं राम दुलारी मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त सजदा एवं राम दुलारी फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि case FIR No. 284/2019 U/s 323/341/506/34 IPC थाना मंगोलपुरी, दिल्ली के उक्त अभियुक्त सजदा एवं राम दुलारी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 10.02.2023 को या इससे पूर्व हाजिर हो। आदेशानुसार

DP/355/OD/2023-(Court Matter)

महानगर दण्डाधिकारी-उत्तर पश्चिम **本**铝 **代**0−105, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

FORM NO. 5

THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL. LUCKNOW 600/1, University Road Near Hanuman Setu Temple Lucknow-236007. [Summons to defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts Due to the Financial Institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery

Tribunal (Procedure Rules 1993)] O.A. No. 927/2020 Date: 17/11/2022

VERSUS

...DEFENDANTS

I.MR. VAJIRAS ALIYA BANDARA KONARA S/O SH. MADDUMA UPAL KONARA. R/O 64. DHARMA COLONY. PALAM VIHAR. EX-CHROMA **GURGAON 122017 HARYANA** 2. MR. GAURAV SARAN S/O SH. ANIL KUMAR

R/O C-457. SWARN JAYANTI PURAM. GHAZIABAD 201013 ALSO AT: F-19 MAIN MARKET GOVINDPURI MODINAGAR GHAZIABAD 201204 . M/S HOUNSLOW BUILDERS PVT. LTD.

HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT: F-127, HARSH VIHAR, HARI NAGAF EXTN. PART-3 NEAR BADARPUR NEW DELHI 110044

In the above noted application, You are required to file reply in the Paper Book form in two sets along with documents and affidavit personally or through your duly authorized agent of legal practitioners in this tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/dully authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appea before the tribunal on 17/01/2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Enclosure:-As above.

Registrar, **Debts Recovery Tribunal, Lucknow**

इंडियन बैंक 🕰 इलाहाबाद

अजय सिंह परिहार

Indian Bank

ALLAHABAD

शाखाः हाथरस, आगरा रोड

प्रतिभृतिकरण और विलीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) (सरफेसी एक्ट) के तहत नोटिस अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बेंक (प्-इलाहाबाद बेंक)** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित ऋणियों/गारेटरों की मांग सूचना जारी की थीं और मांग सूचना पत्र उनके व्यवसायिक एवं आवासीय पतों पर रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये थे। पुन: इस सूचना के प्रकाशन द्वारा ऋण ग्रहिता, गारंटरों को, जिन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त किया था, को सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के 60 दिन के अन्दर अपने सभी अधोवर्णित ऋणों का भुगतान कर दें। इसके साथ ही, ऋणी/गारंटरों को विशेष रूप से और सर्व साधारण को सामान्य रूप से एतदद्वारा नीचे दी गई सम्पत्ति के साथ क्रय-विक्रय व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है जो कि हमारे पास प्रतिभृति के रूप में रखी गयी है। ऋण खाता/ऋणी/बंधककर्ता/ नोटिस देयताएं

The suppose of the su

 साम्यिक बंधक भूमि एवं भवन खसरा नं. 48 का भाग मुरसान सादाबाद रोड, ग्राम ब्रिसलान, परगना मुरसान तहसील हाथरस, एरिया- 5450 वर्ग मी., सम्पत्ति मैसर्स अपना एग्रो कोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर, चौहद्दी: 		3,93,24,685
पूर्व- प्रदीप कुमार की भूमि, पश्चिम- संतोष एवं अन्य की भूमि, उत्तर- मुरसान सादाबाद रोड, दक्षिण- प्रदीप कुमार की भूमि 2. साम्यिक बंधक दुकान नंबर 106 (पुराना नंबर ए-1 खसरा नंबर 61 ग्राम शकरपुर खास) प्रथम तल अवध कॉम्प्लेक्स प्लॉट नं. डी-5 लक्ष्मी नगर दिल्ली, एरिया- 94.9 वर्ग फीट, सम्पत्ति श्री संजय कुमार के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- रोड, पश्चिम- रोड, उत्तर- अन्य संपत्ति, दक्षिण- रोड 3. साम्यिक बंधक फ्लैट स्थित दूसरी मंजिल जिसकी आधी छत प्लॉट नंबर KB-33, कौशाम्बी, गाजियाबाद, एरिया- 106.83 वर्ग मीटर, (1149.49 वर्ग फीट), सम्पत्ति श्री महक सिंह पुत्र श्री कालू राम के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- सड़क 9 मीटर, पश्चिम- आशा पुष्प विहार समिति का प्लॉट, उत्तर- प्लॉट नं. के.बी. 34, दक्षिण- प्लॉट नं. के.बी. 32 4. साम्यिक बंधक फ्लैट नंबर 183 तीसरी मंजिल स्थित सीमांत विहार कॉलोनी, कौशाम्बी गाजियाबाद, एरिया- 736 वर्ग फीट, (68.40 वर्ग मीटर), सम्पत्ति श्री महक सिंह एवं श्रीमती अनीता पंवार के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- फ्लैट नं. 184, पश्चिम- फ्लैट नं. 174, उत्तर- फ्लैट नं. 224, दक्षिण- सिमिति रोड 40 फीट	22.12.7	दि. 21.12.203 तक + ब्याज व अन्य खरे
	2. साम्यिक बंधक दुकान नंबर 106 (पुराना नंबर ए-1 खसरा नंबर 61 ग्राम शकरपुर खास) प्रथम तल अवध कॉम्प्लेक्स फ्लॉट नं. डी-5 लक्ष्मी नगर दिल्ली, एरिया- 94.9 वर्ग फीट, सम्पत्ति श्री संजय कुमार के नाम पर, चाँहद्दी: पूर्व- रोड, पश्चिम- रोड, उत्तर- अन्य संपत्ति, दक्षिण- रोड 3. साम्यिक बंधक फ्लैट स्थित दूसरी मंजिल जिसकी आधी छत प्लॉट नंबर KB-33, कौशाम्बी, गाजियाबाद, एरिया- 106.83 वर्ग मीटर, (1149.49 वर्ग फीट), सम्पत्ति श्री महक सिंह पुत्र श्री कालू राम के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- सड़क 9 मीटर, पश्चिम- आशा पुष्प विहार सिमित का प्लॉट, उत्तर- प्लॉट नं. के.बी. 34, दक्षिण- प्लॉट नं. के.बी. 32 4. साम्यिक बंधक फ्लैट नंबर 183 तीसरी मंजिल स्थित सीमांत विहार कॉलोनी, कौशाम्बी गाजियाबाद, एरिया- 736 वर्ग फीट, (68.40 वर्ग मीटर), सम्पत्ति श्री महक सिंह एवं श्रीमती अनीता पंवार के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- फ्लैट नं. 184, पश्चिम- फ्लैट नं. 174, उत्तर- फ्लैट नं. 224, दक्षिण- सिमित रोड 40 फीट	2. साम्यिक बंधक दुकान नंबर 106 (पुराना नंबर ए-1 खसरा नंबर 61 ग्राम शकरपुर खास) प्रथम तल अवध कॉम्प्लेक्स फ्लॉट नं. डी-5 लक्ष्मी नगर दिल्ली, एरिया- 94.9 वर्ग फीट, सम्पत्ति श्री संजय कुमार के नाम पर, चाँहद्दी: पूर्व- रोड, पश्चिम- रोड, उत्तर- अन्य संपत्ति, दक्षिण- रोड 3. साम्यिक बंधक फ्लैट स्थित दूसरी मंजिल जिसकी आधी छत प्लॉट नंबर KB-33, कौशाम्बी, गाजियाबाद, एरिया- 106.83 वर्ग मीटर, (1149.49 वर्ग फीट), सम्पत्ति श्री महक सिंह पुत्र श्री कालू राम के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- सड़क 9 मीटर, पश्चिम- आशा पुष्प विहार समिति का प्लॉट, उत्तर- प्लॉट नं. के.बी. 34, दक्षिण- प्लॉट नं. के.बी. 32 4. साम्यिक बंधक फ्लैट नंबर 183 तीसरी मंजिल स्थित सीमांत विहार कॉलोनी, कौशाम्बी गाजियाबाद, एरिया- 736 वर्ग फीट, (68.40 वर्ग मीटर), सम्पत्ति श्री महक सिंह एवं श्रीमती अनीता पंवार के नाम पर, चौहद्दी: पूर्व- फ्लैट नं. 184, पश्चिम- फ्लैट नं. 174, उत्तर- फ्लैट नं.

से सेवित नहीं हुई हैं इसलिए, हम अब उक्त अधिनियम की धारा 13(2), नियम 3 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार अपेक्षित मांग सूचना को प्रकाशित करने के लिए विवश हैं। इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के अंदर ब्याज, लागत, प्रासंगिक व्यय, प्रभार इत्यादि सहित अपनी समस्त राशि का भुगतान करें अन्यथा, बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत ऋणी और गारंटरों की सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर उसकी बिक्री करने सहित सभी अथवा किसी एक अथवा अधिक बंधक सम्पत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उक्त सम्पत्ति की बिक्री/लीज इत्यादि के माध्यम से स्थानान्तरित करने से और किसी अन्य माध्यम से बाधा डालने से प्रतिबंधित किया जाता है। दिनांक 12-01-2023 स्थान : अलीगढ अधिकृत अधिकारी

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING

सरफासी अधिनियम 2002 की धारा

पंजाब नेशनल बेंक ि००० punjab national bankthe name you can BANK upon! ...the name you can BANK upon!

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुड़गाँव-122001

कॉर्पोरेट कॉर्यालय: प्लॉट नं. 4, सैक्टर-10,

द्वारका नई दिल्ली-110075

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार)

प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(राँ) और गारंटर(राँ), आरक्षित मूल्य और परोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

शाखा का नाम आरक्षित मृल्य सुरक्षित 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि बंधक अचल नीलामी सम्पत्तियों का विवरण/ लेनदारों को खाते का नाम मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि ईएमडी की सरफासी अधिनियम 2002 की धारा (ईएमडी जमा करने की ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स स्वामित्व का नाम कर्जदार / गारंटर्स खाते 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि अंतिम तिथि) तिथि एवं का विवरण कब्जा की स्थिति का नाम एवं पता बोली वृद्धि राशि समय सांकेतिक / भौतिक / रचनात्मक A) 01.06.2022 20 / 1227, मुस्तिल नं. 41, पीएनबी फव्वारा चौक- गुरुग्राम ज्ञात नहीं 02.02.2023 **v. 109.80** ਜਾਂਥ मैसर्स सफॉयर डिजिटल प्रिंटर्स, पताः 1347, सेक्टर 23ए B) v. 63.55.69.455.88 पर्वाह 11.00 बजे किला नं. 23, 24/3, मुस्तिल रु. 10.98 लाख गुरुग्राम-122017 प्रोप. नीरज चौधरी, पताः 180/15ए, फरीदाबाद, और भविष्य का ब्याज और प्रमार से अपींह नं. 46. किला नं हरियाणा-121007 <u>और:</u> मकान नं. 397, सेक्टर 23, गुरुग्राम और 20/1227 इत्यादि 04.00 बजे (01.02.2023) 3,4,7,13,14,1,17, वार्ड नं. 7, मुस्तिल नं. 41, किला नं. 23, 24/3, मुस्तिल नं. 46, किला नं. 3,4,7,13,14,17, C) 29.08.2022 नंह के रेवेन्यू ईस्टेट में, बस वार्ड नं. 7, नूंह के रेवेन्यू इस्टेट, बस स्टैंड के पास, जिला मेवात, हरियाणा-₹. 1,00,000/-D) सांकेतिक 122002, गारंटर: श्री सुरिंदर सिंह बेदी, पता: मकान नं. 338, सेक्टर 15, स्टैण्ड के पास, जिला मेवात. फरीदाबाद, हरियाणा—121 007, श्रीमती किरण छोकर, श्री विकास कुमार, श्री हरियाणा - 122002 में रिथत. राजबीर सिंह, श्री कंवर सिंह, पताः ए-2/15, डीएलएफ सिटी फेज-1 यह सम्पत्ति श्री नीरज चौधरी गुरुग्राम हरियाणा-122008, श्रीमती मोनिया चौधरी, श्री आर एम चौधरी, से संबंधित श्रीमती कविता चौधरी, पताः 1347, सेक्टर 23ए, गुरुग्राम-122017, श्रीमती भाग्यवती, मकान नं. 83, कस्बा वार्ड नं. 1, फैक्ट्री एरिया समालखा, पानीपत,

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे हैं जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनाकों को आयोजित की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app, https://etender.pnbnet.in:8443/banks/detail/pnb/MTQy देखें। (5) और, नीचे दिए गए क्यूआर कोड़ को स्कैन करने के बाद, यह बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट (https://pnbindia.in) पर नीलामी पृष्ठ पर ग्रेषित करेगा। जहां ई-बिक्रे पोर्टल और बैंक के नीलामी पोर्टल पर ई-नीलामी पर सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

(कलदीप सिंह राणा) प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूमि लेनदार, पंजाब नैशनल बैंक, मो. 9805050121

पंजाब मेशनल बेंक

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001, मो. : 9971720088, ई-मेल: cs8228@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिनृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित हैं, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और घरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची (E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के शाखा का नाम (A) आरक्षित मृल्य प्रतिभृति लेनदार नीलामी अंतर्गत मांग सूचना की तिथि अचल सम्पत्तियों का विवरण -丣. की के संज्ञान में खाते का नाम (F) सरफासी अधिनियम 2002 की घारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (B) ईएमडी बंधक / स्वामी के नाम तिथि एवं ऋण भारों (G) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (सम्पत्तियों के बंधककर्ता) (C) बोली वृद्धि राशि का विवरण कर्जदार / गारंटर्स खाते का नाम एवं पता समय (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक

कौशाम्बी, गाजियाबाद (300000) (E) 01-03-2016 **श्री दिलीप सक्सेना**, रिहायशी एचआईजी, फ्लैट नं, एच—19, द्वितीय तल, प्लॉट (F) 23-05-2016 i. 8 / 16. ब्लॉक-बी, सेक्टर-8, सेक्टर-3, राजिंदर नगर, गाजियाबाद, यू.पी. **श्रीमती वंदना सक्सेना**, एचआईजी, फ्लैट नं, एच-19, द्वितीय तल, प्लॉट नं, (H) भौतिक 8/16, ब्लॉक-बी, सेक्टर-8, सेक्टर-3, राजिंदर नगर, गाजियाबाद, यु.पी. मैसर्स संत इंडस्ट्रीज (प्रोप. दिलीप सक्सेना) ए 316ए डवुआ, नवादा रोड, भारत गैस एजेंसी के पास, औद्योगिक क्षेत्र एनआईटी, फरीबदाद, हरियाणा

दिनांक : 11.01.2023, स्थान : गुरूग्राम

(G) रु. 69.02 लाख + ब्याज एवं प्रमार इत्यादि

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी एच आई जी फ्लैट नं. एच-19, द्वितीय तल (छत के अधिका सहित) एचआईजी टाईप, प्लॉट नं. 8/6, ब्लॉक - 8. सैक्टर-3, राजिन्दर नगर, गाजियाबाद में स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 102.19 वर्ग मी., प्लॉट के अनुसार चौहदी : उत्तर में प्लॉट नं. 17, दक्षिण में – 40फीट चौडी रोड, पूरब में –

प्लॉट नं. 73 और 74, पश्चिम में - 100फीट चौडी रोड

(A) ₹. 38.37 लाख (B) रु. 3.84 लाख (C) ₹. 10,000/-04.00 बजे

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, 9971720088, (प्राधिकृत अधिकारी), पंजाब नैशनल बैंक

30-01-2023 ज्ञात नहीं पूर्वोड 11.00 बजे से अपिं

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्त

(1) बिक्री, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

(2) सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (3) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उदघोषणा में किसी बृटि, गलत बयान या चुक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

(4) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से 30.01.2023 को आयोजित की जाएगी। (5) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शतों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app. देखें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांकः 10-01-2023, स्थानः गाजियाबाद

